



भारतीय जनता पार्टी – हिमाचल प्रदेश

प्रदेश कार्यालय – मीडिया सैल



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07.11.2017

वीरभद्र का भ्रष्ट माडल राहुल गाँधी को मुबारक

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सतपाल सती ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा गुजरात से हिमाचल माँडल को बेहतर बताने वाले ब्यान का संज्ञान लेते हुए कहा कि गुजरात का माडल पूरे देश के लिए एक आदर्श है और वीरभद्र सिंह का भ्रष्ट माँडल उन्हें मुबारक हो। श्री सती ने कहा कि वीरभद्र तथा उनके परिवार के सदस्यों ने भ्रष्टाचार कर हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में शर्मसार किया है। श्री सती ने कहा कि कांग्रेस की हार को देखते हुए वीरभद्र सिंह अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित रह गए हैं और हमेशा की तरह अपने इस चुनाव को अंतिम चुनाव बता कर मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के शेष प्रत्याशियों को अब हार के लिए उनके अपने भाग्य पर छोड़ दिया है इससे कांग्रेस में वीरभद्र सिंह के प्रति नाराजगी खुल कर सामने आ रही है। इतिहास साक्षी है कि वीरभद्र सिंह ने परमाणु में कुछ वर्ष पूर्व अपने सहयोगी नेता आनंद शर्मा पर कालक फेंकी थी और आनंद शर्मा का चेहरा काला किया गया था। ऐसे ही अनेक उदाहरण जिनमें ठाकुर सिंह नेगी, हरिदास, राजा विजेंदर सिंह, ठाकुर राम लाल, जय बिहारी लाल खाची जैसे से अनेक नेताओं को हमेशा हासिये पर रखा। सती ने कहा कि वीरभद्र सिंह उनके खिलाफ हो रही जांच को भाजपा नेताओं द्वारा करवाए जाने की बात कर रहे हैं और विधानसभा चुनावों के दौरान मुद्दों को भटकाने का प्रयास करते रहे हैं जबकि वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई ने वर्ष 2009 से 2012 के मध्य जब वे केंद्रीय इस्पात मंत्री थे आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए थे। वीरभद्र सिंह की स्थिति आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली है।

सती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अब कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है और प्रदेश में बहारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है

प्रदेश मीडिया प्रभारी
महेन्द्र धर्माणी
भारतीय जनता पार्टी, हि0प्र0।